



Date: 01/06/2023

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 534809

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper publications made pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the newspaper publications made by the Company pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on June 1, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding audited financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours sincerely,
For **PC Jeweller Limited**

VIJAY PANWAR

Digitally signed by VIJAY PANWAR
DN: cn=PERSONAL,
pseudoym=b90a3d86ab90ef44cd7dd30df41b88c547c7
895effc0fba61ab1a97adaf, postalCode=250001,
serialNumber=2e116a9ab182f1ca67d225d7795b6ca18f67
22fb15804672aa5188ae6272653, cn=VIJAY PANWAR
Date: 2023.06.01 17:00:25 +05'30'

(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF : C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH. : 011 - 49714971 FAX : 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

NO EASING OF PRESS NOTE 3 PROVISIONS

Curbs on FDI from neighbours to stay

Nearly 50 proposals awaiting clearance under PN3

MUKESH JAGOTA New Delhi, May 31

THE GOVERNMENT HAS ruled out any easing of restrictions on foreign investments from countries sharing land borders with India despite demand from certain sections of the industry and startup ecosystem. It is highly unlikely changes in Press Note 3 of 2020, FDI from the countries sharing land borders with India is not totally banned. They just have to follow the government approval route and of-course that takes time, an official source said.

"There is no change in stance...there is route for them and for that they require security and political clearances," the source added.

In 2020 as stock markets crashed and panic set in the



During this period inflows from Hong Kong were \$4.7 billion. Sources say around 40-50 investment proposals from China and other countries which share land borders with India are pending for approval. In the last one year, hardly any of the proposals has been cleared, they said. The usual time for clearing such proposals is 3 months but it is taking close to 7 months because of the effort required, sources said.

Industry reports suggest that due to delays in processing FDI requests MG Motor, a British brand owned by China's largest automaker SAIC Motor Corp., has decided to rope in Indian partners for its local venture. It has decided to divest majority stake to Indian companies to raise ₹5,000 crore to fund its next round of expansion.

Faced with a somewhat similar situation some Chinese mobile phone and electronic brands like Xiaomi are tapping local contract manufacturers to expand in India.

Between April 2000 and March 2023 total FDI from China was a minuscule \$2.4 billion out of the total \$63.4 billion.

Inflation for industrial workers eases

RETAIL INFLATION FOR industrial workers eased to 5.09% in April from 5.79% in March this year mainly due to lower prices of food items. "Y-o-Y inflation for the month stood at 5.09% compared to 5.79% for March and 6.33% during the corresponding month a year before," PTI said.

VASCON ENGINEERS LIMITED
Registered & Corporate Office: Vascon Weikfield Chambers, Behind Hotel Novotel, Opp. Hyatt Hotel, Pune - Nagar Road, Pune - 411 014 Tel.: +91 20 3056 2100/200/300, Email: oia@vascon.com
Website: www.vascon.com

TRADE MARK CAUTION NOTICE

Take notice that my client's, VASCON ENGINEERS LIMITED having registered and corporate office at Vascon Weikfield Chambers, Behind Hotel Novotel, Opposite Hyatt Hotel, Pune Nagar Road, Pune-411014 are carrying on an old and established business of providing construction, building and allied services for more than last three decades. With my client's vision and dedicated and effective expertise, their organization has been providing above mentioned services all over India and also in foreign countries. My client's credentials include -

- 1) Listing company in NSE India Limited and BSE Limited on 15-02-2010.
 - 2) Launching World Class Luxury Project namely Windermere at Koregaon Park, Pune in March 2012.
 - 3) Launching Vascon Goodlife Project in Talegaon in May 2018.
- My clients are the owners and registered proprietors of the trade mark "VASCON" bearing no. 1317735 in class 37. The trade mark (label and word mark) representation includes: -



The aforesaid trade mark is being used continuously, extensively and widely throughout the country since last 19 years and is enjoying tremendous goodwill and reputation due to its continuous, extensive and wide usage and registration.

It has come to our attention that some concerns, competitors and illegal use of our aforesaid trademark and by copying our registered trademark "VASCON". Public, companies and the entire industry are advised to be cautious about such dishonest practices. Such unauthorized use of our registered trade mark is a violation of our extensive proprietary rights and hence, we are entitled to all legal remedies and reliefs in law including injunction and damages.

The members of the trade and public at large are hereby alerted against any such misrepresentation/ rumours and not to deal with such unscrupulous entities with which our organization has no connection whatsoever. In any case, any member of the public has dealt with or has any knowledge about such unscrupulous people/organization/establishment, he/she is immediately requested to file a complaint with the jurisdictional police or to intimate us in writing so that necessary legal action is taken from our side. My client or any of its associates shall not be held liable for the acts of such fictitious people and entities.

Dated this 1st June 2023

Umesh G. Parulkar - Advocate
Flat No.4, Seeta Sadh, Sanapatti Bapat Marg, Dadar(W), Mumbai-400028
Email id:- umesh.parulkar@gmail.com

India's exports to outpace world average: StanChart

FE BUREAU New Delhi, May 31

INDIA'S MERCHANDISE EXPORT growth will outpace global average and touch \$7.73 billion by 2030, a report by Standard Chartered said on Wednesday.

The global growth in goods trade will be 5% on an average till 2030 to touch \$32.6 trillion while India will be growing at 7.5% annually during that period, the report said.

According to the projections made in the report, despite above average growth India's exports will fall short of the government's target of \$1 trillion by 2030. India has a target of \$2 trillion in both services and goods exports by 2030.

The growth above the world average is expected to increase India's share in global exports to 2.37%, up from 1.8% now.

The geographies that will see India's exports rising at the highest pace are Turkey, Vietnam and Indonesia.

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
O.O. Executive Engineer E&MHQ-II
Room No. 03, Gate No. 04, D. Ambedkar Stadium, Delhi Gate, New Delhi-110002. Email: eandm3dmc@gmail.com
INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST
No. MCD/ENG/GE/E&MHQ-II/EO/2023-24/001
Date: 30/05/2023
The Municipal Corporation of Delhi (MCD) intends to call Expression of Interest (EOI) for the implementation of GPS enabled smart waste watches to ensure and monitor proper functioning of Safai Karamcharis (SKs) working under different zones of MCD. The EOI document containing the details of qualification criteria, submission details, brief objective & scope of work, and evaluation criteria etc. can be downloaded from <https://www.mcd.gov.in/procurementapp>.
Schedule for EOI: Date of issue for EOI: 29.05.2023. Prebid Meeting for Clarifications: 05.06.2023 12:00 Hours. Last date of Submission of EOI: 19.06.2023 upto 15:00 hours.
Note: Any further communication i.e. clarification/enquiry to pre-bid query etc. in regard to this EOI will only be available on e-procure portal and will not be published in newspaper.
RO NO. - 140/PN/CM/2023-24 Executive Engineer E&MHQ-II

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय व विभिन्न उपयोग की गैर आवासीय सम्पत्तियों को E-Auction के द्वारा प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना
मेरठ विकास प्राधिकरण की विवसायिक एवं गैर आवासीय क्षेत्रों में विभिन्न उपयोग की सम्पत्तियों को E-auction से प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2023 से 16.06.2023 तक का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in के E-auction लिंक पर उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि E-auction हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों में प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में विभिन्न प्रकार के आवासीय बूथखंड भी E-auction से प्राप्त करने हेतु उपलब्ध है।
सविष्ट. Advt. No.: 03/JMDA/23-24 उपाययक्ष

EESL ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED
Registered & Corporate Office: NFL Building, 5th & 6th Floor, Core - III, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003
CIN: U40200DL2009PLC196789, Website: www.eeslindia.org, E-mail: info@eesl.co.in

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the three months and year ended 31st March 2023

S. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Three months ended		Year ended			
		31 Mar 2023	31 Dec 2022	31 Mar 2023	31 Mar 2022	31 Mar 2023	31 Mar 2022
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income	44,006.41	43,273.11	167,746.05	161,462.87	245,398.62	229,152.67
2	Profit/(loss) before tax	(4,546.94)	(10,255.97)	(36,098.66)	(21,718.41)	(39,877.51)	(23,890.24)
3	Profit/(loss) after tax	(2,237.53)	(8,162.27)	(27,771.07)	(15,332.91)	(30,985.62)	(17,316.43)
4	Total comprehensive income/(loss)	(2,233.91)	(8,160.18)	(27,731.02)	(15,424.03)	(30,245.35)	(18,031.60)
5	Paid up equity share capital (Face value of ₹10/- per share)	139,082.00	139,082.00	139,082.00	139,082.00	139,082.00	139,082.00
6	Reserves excluding revaluation reserves	(40,988.37)	(39,812.15)	(40,988.37)	(13,257.35)	(47,248.09)	(17,127.85)
7	Net worth	98,093.63	99,269.85	98,093.63	125,824.65	91,833.91	121,954.75
8	Paid up debt capital	420,295.09	443,069.45	420,295.09	446,213.53	420,418.96	446,582.72
9	Debt equity ratio	4.28	4.46	4.28	3.55	4.58	3.66
10	Earnings per share (EPS) (Face value of ₹10/- per share) Basic and Diluted (₹)	(0.16)	(0.59)	(2.00)	(1.26)	(2.21)	(1.41)
11	Debenture redemption reserve	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	2,500.00	7,000.00
12	Debt service coverage ratio	2.95	3.04	2.95	0.99	0.65	0.94
13	Interest service coverage ratio	0.68	0.85	0.68	3.46	2.94	3.43

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of three months and year ended audited consolidated and standalone financial results filed with Stock Exchange under Regulations 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the three months and year ended audited consolidated and standalone financial results is available on the Investor's Zone of our website <https://www.eeslindia.org> and under corporates section of BSE limited at <https://www.bseindia.com>
- The above financial results have been duly reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 30 May 2023.
- Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

For and on behalf of Board of Directors
Of Energy Efficiency Services Limited
Sd/-
Vishal Kapoor
Chief Executive Officer (CEO)

Place: New Delhi
Date: 30.05.2023
Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110 092 | CIN: L36911DL2005PLC134929
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, E-mail: info@eejweller.com, Website: www.pcejweller.com

Managing Director and CEO of The Nainital Bank Ltd. met with Governor of RBI Shri Shaktikanta Das

Nikhil Mohan MD & CEO

Managing Director and Chief Executive Officer of The Nainital Bank Mr. Nikhil Mohan met with Respected Governor of Reserve Bank of India Shri Shaktikanta Das in Conference for Directors of Private Sector Banks at Mumbai on 29th May 2023. A very informative and interactive workshop organised by RBI Team.

PCJ Jeweller Limited

Extract of audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2023

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2023		Year Ended 31.03.2023	
		Audited	(Unaudited)	Audited	(Unaudited)
1.	Total Income from Operations	173.37	2472.88	188.63	
2.	Net Profit/(Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(152.45)	(107.93)	(272.58)	
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(152.45)	(107.93)	(272.58)	
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(302.41)	(203.20)	(172.58)	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Including Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(303.28)	(198.57)	(168.69)	
6.	Equity Share Capital	485.40	485.40	485.40	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		3225.15		
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	
1.	Basic (₹)	(6.50)	(4.37)	(3.72)	
2.	Diluted (₹)	(6.50)	(4.37)	(3.72)	

Key figures of audited standalone financial results: (₹ in crores)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2023	Quarter Ended 31.03.2022
1.	Total Income from Operations	173.24	2559.46	168.99
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax	(257.76)	(244.84)	(278.80)
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax	(407.95)	(339.11)	(179.01)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 are available on the website of PCJ Jeweller Limited (www.pcjeweller.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company at the URL: <https://corporate.pcjeweller.com/financial-results/>
- Details of audit qualifications (Standalone): (i) As explained in Note 5 to the accompanying statement, the company during the financial year ended 31 March 2023 had provided discounts of ₹ 813.86 crore to its export customers, which had been adjusted against the revenues for the period. The management had initiated the process of complying with the requirements of the Master Circular on Exports of Goods and Services issued by the Reserve Bank of India and had filed the necessary applications with the appropriate authority for approval of such discounts, which is a prerequisite under the Foreign Exchange Management Act, 1999. Subsequently, the company has obtained the approvals from the authorised dealer banks for reduction in receivables corresponding to discounts amounting to ₹ 330.49 crore. For the remaining discounts of ₹ 483.36 crore, in the absence of requisite approvals and material evidence related to such transactions, we are unable to comment on the impact, if any, of the same on the accompanying statement. Auditor's opinion for the year ended 31 March 2019, 31 March 2020, 31 March 2021 and 31 March 2022 and our conclusion for the quarter ended 30 June 2022, 30 September 2022 and 31 December 2022 were also modified in respect of this matter.
- With respect to provision for the expected credit loss/impairment relating to overdue overseas Trade Receivables as required under Ind-AS 109, the management has calculated an additional provision of ₹ 11.96 crore during the year in respect of these overdue receivables. However, no realisation has been made during the year against overdue trade receivables towards export of goods aggregating to ₹ 1707.27 crores (including unrealised foreign currency exchange gain of ₹ 239.74 crore) as on 31 March 2023 out of which ₹ 1555.56 crores (including unrealised foreign currency exchange gain of ₹ 197.04 crore) is outstanding from more than 3 years. Also, no export transactions have been done with these overseas debtors during the year. Further, as informed to us, legal notices have been served to the overseas debtors and the company is in process of finalising legal cases for initiating legal proceedings. Up to 31 March 2023, the company has made an ECL provision of only ₹ 282.59 crore based on revised payment schedule as provided by the overseas debtors. Despite of no realisation as per the scheduled expected dates from the export receivables and considering the initiation of legal route for recovery during the year, we are unable to examine adequacy of the provision for expected credit losses and its consequential impact and adjustments on the accompanying statement.
- As explained in Note 8 to the accompanying statement, due to rejection of the resolution plan by the lenders and the Lead Bank has initiated the recovery proceedings through Debt Recovery Tribunal (DRT) and obtained an order to seize, take control and prepare an inventory of entire stocks of hypothecated assets to the lenders. In response, the company has moved to the Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) against the order of the DRT and the matter is sub-judice. Meanwhile, some of the other constituent companies of the company, which may affect the Net Realisable Value of the inventory. Further, significant quantum of inventory was lying with Third Parties (Kargars/Job-Workers), which could not be physically verified/inspected by independent agencies/lenders. Such inventory lying with third parties is not adequately insured. Further, no valuation reports by the independent gemmologist/valuer were made available to us for this inventory as shown in accompanying statement. In view of the above, we are unable to examine and express an opinion on inventory value and its consequential impact and adjustments on the accompanying statement.
- As explained in Note 8 to the accompanying statement, due to rejection of the resolution plan by the lenders of holding company, the Lead Bank has initiated the recovery proceedings through Debt Recovery Tribunal (DRT) and obtained an order to seize, take control and prepare an inventory of entire stocks of hypothecated assets to the lenders. In response, the holding company has moved to the Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) against the order of the DRT and the matter is sub-judice. Meanwhile, some of the other constituent members have also filed their recovery suit in DRT against the holding company. Accordingly, the Order of DRT and DRAT, the appointed agencies along with valuers have started necessary implementation of the Order including inventory and valuation of inventory at some locations of the holding company. Since, these locations were carrying major inventory and were under process of inventory and valuation as per the order of DRT/DRAT as on 31 March 2023, the physical verification of the inventory could not be conducted by the management at these locations. This, being a significant event, may have an adverse impact on the Goodwill and the Brand Image of the holding company, which may affect the Net Realisable Value of the Inventory. Further, significant quantum of inventory was lying with Third Parties (Kargars/Job-Workers), which could not be physically verified/inspected by independent agencies/lenders. Such inventory lying with third parties is not adequately insured. Further, no valuation reports by the independent gemmologist/valuer were made available to us for the inventory as shown in accompanying statement. In view of the above, we are unable to examine and express an opinion on inventory value and its consequential impact and adjustments on the accompanying statement.

For and on behalf of the Board
PC Jeweller Limited
Sd/-
(Balam Gang)
Managing Director
CIN: 00932063

